

March 5, 2021

Asst. Vice President, Listing Deptt.,

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (E),

MUMBAI - 400 051

Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary, **BSE Limited**25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding the issue of duplicate share certificate in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

Kindly note that duplicate share certificate will be issued to the concerned shareholder in case no objection is received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Limited

(Dhiraj Kapoor) General Manager - Secretarial

Encl.: As above



FINANCIAL EXPRESS



Head Office, C-4, G Block, Digital Baking Department, Star House-II, 6° floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. E-mail: HO DeliveryChannel@benkofindia.co.in

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR UNIVERSAL APPLICATION

Details available on the Bank's Corporate Website www.bankofindia.co.in under 'Tender' section from 03.03.2021. Last Date of Submission - 25.03.2021 (till 3.00 pm)



NOTICE OF LOSS OF SHARES RADICO KHAITAN LIMITED

CIN: L26941UP1983PLC027278

Regd. Office: Bareilly Road, Rampur -244901, Uttar Pradesh Email: investor@radico.co.in

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported as lost/misplaced and the Company intends to issue duplicate certificates in lieu thereof, in due course. Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof.

F	KINNARI GANDHI REKHA GANDHI PRIME SECURITIES LTD.	0025226	1550	59501	4383381-4384930
2. 1	PRIME SECURITIES LTD.	0000007			
		0000001	9365	61391	5407086-5416450
3. (C KRISHNAN KUTTY	00801338	310	63761	7645701-7646010
Ü	ANILMANISHANKER UPADHYAY SANJAYSAXENA	0011566 0025747	310 620	54022 59709	851361-851670 4484941-4485560
6. 1	DEEPAK KUMARAGARWAL	0035895	650	64068	6475131-6475780
1	UMESH DUNICHAND MOTWANI DEEPA UMESH MOTWANI	0015724	1250	55810	2325881-2327130
8.	SUBHADRA DEVI DIGGA	0019036	310	57117	3200016-3200325

|Failing to receive any objections within 15 days from the date of publication, the company will proceed to issue the fresh share certificate to the Registered Share holders without entertaining any claim of any nature whatsoever in future

Place: New Delhi

For Radico Khaitan Limited Dinesh Kumar Gupta VP - Legal & Company Secretary



4

Hero

Gujarat Informatics Limited

Block No. 2, 2nd Floor, C & D Wing, Karmayogi Bhavan, Sector-10A, Gandhinagar. Phone: 079-23256022, Fax: 079-23238925 Website: http://gil.gujarat.gov.in

NOTICE FOR INVITING BIDS

GIL invites bid through E-tendering under GeM Portal for Selection of Agency for Supply, Installation, Commissioning and Management of Internet Leased Line at Various Godown / Locations working under Gujarat State Civil Supply Corporation Ltd, Government of Gujarat. GeM Tender No: GEM/2021/B/1090561 Dated : 03-03-2021. Interested parties may visit http://www.gil.gujarat.gov.in or https://www.gem.gov.in for eligibility criteria & more details about the bid. - Managing Director

Hero MotoCorp Limited

Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070 CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-46044220 Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarialho@heromotocorp.com Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATE

mbers of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd ('Company') are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to request received from concerned shareholder, the Company intends to issue duplicate share certificate in lieu of the said Original Share Certificate (Face Value Rs. 2/-) in her favour:

Folio No.	Shareholders Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares
HML0065537	YOLANDA	Rs.10/-	3293366-3293415	65877	50
CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	RIBEIRO	5115E0057V	16197515-16197524	231954	10
	100000		16197525-16197526	231955	02

Any person having objections to issue of duplicate Share Certificate, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email a secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd Sd/

Neerja Sharma

Place: New Delhi Company Secretary & Chief Compliance Officer

MANGALAM CEM

Regd. Office: P.O. Adityanagar 326520 CIN: L26943RJ197

PUBLIC NOTICE-LOSS OF

NOTICE is hereby given that following share certificate misplaced and the registered holder thereof have applie Agent of the Company for issue of entitlement letter for

Folio Name of the Sharehold No. or Beneficiary		Sh Certi N
Z004836	NAVINCHANDRA C MODI/ USHA N MODI (DECEASED)	70221

The Company/Registrar and Share Transfer Agent of the entitlement letter in respect these shares, if no valid ob address given above within 15 days from the date of pul

Date: 04.03.2021



E-Tender Notice (Open Tender En RESOURCE PLANNING

Tender Enquiry No- NMDC/ RP / EoC / 2021 / 0 MSTC Ref No: - NMDC / HO / 129 / 20-21 / ET / Tenders are invited from Indian bidders for "E NMDC for Participation in the e-Auction/ All Mines in India".

For viewing / downloading the schedule of e-bide qualification requirements and tender docume qualification requirements and tender document web site link: https://www.mstcecommerce.cc line as 'New Vendor'. For further help, the 'Vend Link to MSTC e-tender platform is also www.mmdc.co.in. The lender documents can a www.nmdc.co.in and CPP Portal http://eprocure Any corrigendum to the tender will be upload Prospective bidders should visit these websi

corrigendum, if any.
For further clarification, CGM (RP), NMDC I Fax 040-23536760, email: jayapal@nmdc.co.i

Chief G

5	Key Management Personnel	Malay A. M							
		Vishal A. M			m[H				
6	Company under the control of Key	Infinium Au							
	Managerial Personnel	Infinium Mo	Infinium Motors Private Limited						
Related	party transactions	-				(Rs in A	Million)		
Particul:	ars	Year ending	Ultimate Holding company	Holding company	Fellow Subsidiary	Associate company	Total		
Service '									
Infibean	Avenues Limited	31-03-2020		22.01			22.01		
Reimbui	rsement of Expenses From -								
Other E									
NSI Infi	nium Global Limited	31-03-2020				11.33	11.33		
Infibean	Avenues Limited	31-03-2020		0.38	(*)		0.38		
Reimbur	rsement of ESOP Expense								
Infibean	Avenues Limited	31-03-2020		8.79			8.79		
	Expenses								
NSI Infi		31-03-2020	-	-		0.79	0.79		
Infibean	Avenues Limited	31-03-2020	100	0.25			0.25		
Loan Ta	ken								
Infibean	Avenues Limited	31-03-2020		18.95	-	7	18.95		
NSI Infi	nium Global Limited	31-03-2020	7.00	5.	1.5	2.70	2.70		
Repayme	ent of Loan Taken								
Infibean	Avenues Limited	31-03-2020		0.25			0.25		
Loan Ta	ken								
Infibean	Avenues Limited	31-03-2020		18.95		- 1	18.95		
NSI Infi	nium Global Limited .	31-03-2020		*		2.70	2.70		
Repayme	ent of Loan Taken								
Infibean	Avenues Limited	31-03-2020	- 12	18.95	72	- 2	18.95		
NSI Infi	nium Global Limited	31-03-2020	12.		120	33.00	33.00		
Closing	Balance								
Trade Pa									
Infibean	Avenues Limited	31-03-2020		13.40			13.40		

1) Transaction entered into with related party are made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions. Outstanding balances at the year-end are unsecured and interest free and settlement occurs in cash.

There have been no guarantees provided or received for any related party receivables or payables

Commitments with related parties

The Company has not provided any commitment to the related party as at March 31, 2020

Related Party disclosures for year ended March 31,2019

As per the Indian Accounting Standard on "Related Party Disclosures" (IND AS 24), the related parties of the Company are as follows:

Name of Related Parties and Nature of Relationship

Sr. No.	Relationship	Name of company/person
1	Holding company	NSI Infinium Global Private Limited (upto 12-02-2019)
		Infibeam Avenues Limited (from 12-02-19)
2	Ultimate Holding company	Infibeam Avenues Limited (upto 12-02-19)
3	Fellow Subsidiary Company	Infibeam Logistics Private Limited
		NSI Infinium Global Private Limited (From 13-02-2019 to 28-02-2019)
		Odigma Consultancy Solutions Private Limited
4	Company under the control of	Infinium Automall Private Limited

M. SUMMARY TABLE OF CONTINGENT Please refer to Note no. 19 of Point no. 1

- N. SUMMARY TABLE OF RELATED PAR
- O. DETAILS OF GROUP COMPANIES OF Prior to the scheme of Arrangement, DR transactions entered by DRC Systems Inc Post approval of the Scheme of Arranger equity shares of DRC. The share
- P. INTERNAL RISK FACTORS:
- 1. Our Company is involved in few legal pro Our Company is involved in few legal pro amounts claimed in these proceedings have Company and other parties. Any unfavor and the results of operations. A summary below:

Nature of Cases
Against Our Company
(i) Civil
(ii) Criminal
Total
By Our Company
(i) Civil
(ii) Criminal
Total

For further details, please see chapter titl not assure you that these legal proceeding cial resources in their defense or prosecu

- 2. We are subject to risks arising from exch Uncertainties in the global financial man INR and other currencies is variable and ciation of the INR against other currenci affect the financial results of our Compar
- Our projects have a long gestation period particular period. A comparison of our fi our Company.

Our projects are spread over a long perio This may cause us to record higher reven statements may become more pronoun

4. If we fail to attract and retain highly skill pete for such IT professionals could mate Our success depends largely on the contr We may encounter higher attrition rates decrease our operating efficiency and pro require us to increase salaries, and we n adversely affect our business, results of o business will depend, in large part, on ou enables us to keep pace with growing der retain the highly skilled IT professionals v

16 जनसत्ता, 5 मार्च, 2021 व्यापार



दक्षिणी दिल्ली नगर निगम



सेन्द्रल स्टोर ख्याला ब्लाइंड स्कूल के सामने, बी-ब्लॉक, रघुबीर नगर, नई दिल्ली-110027 निविदा आमंत्रण सूचना

एनआईटी नं. ईई (स्टोर-डीईएमएस)/ डब्ल्यूजेड/2020-21/244 दिनांक: 04.03.2021

दक्षिणी दिस्ली नगर निगम (एसडीएमसी) निम्नितिखित कार्य के लिए एनआईटी में दिये गये योग्यत गापदंजे को गूरा करने वाले योग्य आदेवका/ गंजीकृत निगम रकेदारों से अपने ई-टेडरिंग पोर्टल ए मद दर अध्यर पर दो निवेदा प्रणाली के अंतर्गत खुली निविदाए (एनआईटी नं ई। (स्टोर-बीईएमएस)/ उब्बयुनेड/2020-21/5 दिनाक 03.03.2021) आमंत्रित करते हैं:

1.) सेन्ट्रल स्टोर, एसडीएमसी में 140 लीटर क्षमता वाले व्हील बैरो की आपूर्ति , अनुमानित 45.00 लाख, घरोहर राशि रु. 90,000/-, पूर्णता अवधि 3 माह, माजाः 1000 नेग एवं लांगतः रु. 45.00 लाख, घर लेखाशीर्थः जी—110—1182.

2) से न्द्रत स्टोर, एसडीएमसी में ट्राई साइकिल रिक्शा की आपूर्ति", अनुगानित लागतः रु. 51 13 लाख. घरोहर शक्तिः रु. 1,02,250/-, पूर्णता अवधिः 3 माह, मात्राः 200 नग एवं लेखाशीर्व

सोगता को एवं अन्य विवरण/मिविदा दस्तावेज एसडीएमसी वेबसाइट www.mcd.nic.in और https://etenders.gov.in/eprocure/app से 15.03.2021 को अप. 2.00 बजे तक डाउनलोड किये जा

RO No. 73/DPI/S/2020-21

अधिशासी अभियंता (स्टोर-डीईएमएस)

मुकाबले 11 पैसे

डॉलर के मुंबई, 4 मार्च (भाषा)। प्रमुख मुद्राओं के समक्ष अमेरिकी डॉलर में मजबती लौटने और स्थानीय शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपये में तेजी का दो दिन का सिलसिला टूट गया और गुरुवार को रुपया 11 गिरा रुपया पैसे नरम होकर प्रति डॉलर 72.83 पर बंद हुआ।

सार्वजनिक सूचना

🔕 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

यह सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति व विनिमय बॉर्ड (सेबी) द्वारा डिबेंचर न्यासी स्वरूप जारी पंजीकरण के प्रमाण पत्र को इण्डियन ओवरसीज बेंक ने दिनांक 01.03.2021 को खेक्किक रूप से अध्यर्पित कर दिया है. जिसकी पंजीकरण संख्या आइएनडी००००००१४ है । यह सूचना सेबी (भारतीय प्रतिभृति व विनिमय बोर्ड मध्यवर्ती) के परिपत्र सेबी/ एमआइआरएसडी/ डीओपी2/ सीआइआर/ पी/0000000063 दिनांकित 09 अप्रैल, 2018 के अनुपालन के तहत दी जा रही है।

स्थान : चेत्रे

विनाक: 04.03.2021

महा प्रबंधक एवं मु.वि.अ.



हीयें मोटोकॉर्प लिमिटेड ्टा गारान्य (टामान्ट) पंजीकृत कार्यालयः द गेज् प्लाना, फांट नं 2, नेल्सन मंद्रेला रोड, बसंत कृत - फेस-॥, नई दिल्ली - 110070 (दिल्ली - 110970) विसः 011-4604439) ईमेलः secretarialho@heromotocorp.co वेबसाइट : www.heromotocorp.com

डुप्तीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरों मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजूदा झेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि मृत शेयर प्रमाणपत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं 📝 नहीं मिले हैं 🗸 गुम हो गए हैं, ऐसी सूचना संबंधित शेयरधारक से इस संबंध में प्राप्त हुई हैं। कंपनी उसके प्यर प्रमाणपत्र (अकित मृत्य रू. 2/-) के एवज में डुप्तीकेट शेपर प्रमाणपत्र जारी करने का

फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	ऑकेत मृत्य			शेयरों की संख्या	
HML0065537	योलांडा	ਓ. 10/-	3293366-3293415	65877	50	
	रिबंडरो		16197515-16197524	231954	10	
	1.0/196.07		16197525-16197526	231955	0.2	

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा हुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर तिखित में कंपनी के 'सर्चिवीय डिपॉटमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या ई-मेल secretarialho@heromotocorp.com पर भैजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेखित शेयर प्रमाण पत्नों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

हस्ता./-नीरजा शर्मा

स्थानः नई दिल्ली विनांक: 04.03.2021

कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्परिता आधानम् , 3002 क अवगत इ न्यानस्य इन्नार पुण्या स्थानस्य स्थानस्य () छात्र क अंतरात इ न्यानस्य () धात्र स्थानस्य () धात्र क अंतरात इ न्यानस्य () धात्र साइन नीतायः ।

हारा अगल सम्पत्तियां को विद्यास्य () एत्यास्य () एत्यास्य () प्राप्त के अवगत्तियां का प्रतिभृति हित
प्रवर्तन अधिनित्य, 2002 तथा प्रतिभृति हित (२०वर्तन) निस्तायस्य, 2002 के प्राप्तमस्य के अंतरात कर्या में रहे गाउँ पार्र
नीये परितंत पाल गार्थ्यास्य को अधीनित्य वित्यास्य एवं तर्वों पर पेषसाईट www.indianbanksauction.com के
प्रवर्तन क्षत्रियं के प्रतिभावित्य विषय है पर्व विद्यास्य अधीनस्य के स्थानस्य स्य में पार्वम संदिया

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-बीलामी किकी सूचना

कार्यालयः डी-199, प्रथम तल, नर्मदा अपार्टमेन्ट्स, अलकनंदा, नई दिल्ली-110019

सेक्टर-18, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

श्री प्रथनूर सिंह (पार्टनर) बी-35, सूरजमल विहार, नई दिल्ली-110092 सश्री प्रभवीत कौर पार्टनर

बी-199, प्रथम तल, नर्मदा अपार्टमेन्ट्स, अलकनंदा, नई दिल्ली-

रु. 2,07,39,055.94 (रु. दो करोड़ सात लाख उन्तालिस हजार पचपन एवं पैसे चौड़ानवे मात्र) + उस पर ब्याज तथा अन्य खर्चे

भगतान की तिथि तक आगे के ल्यान तथा लागतों के साथ 28.2.2021 की कल बकाया गणि

बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं

पता जहां बोली दस्तावेज जमा किया

इं-नोलामी की तिथि एवं समय (विकी की पूर्णता तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) सम्पत्ति का विवरण

25.3.2021 के 5.00 बजे अप. तक

एलसीबी शाखा, बी-117, 1ला तल, ब्लॉक बी, सेक्टर 18, नोएडा, उत्तर

ਜ. 0120-2515040/2514646 ईमेल- cb18885@canbank.con

26.3.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक

''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है पर चल सम्पत्ति/प्लान्ट मशीनर्ग (विवरण नीचे वर्णित है)

क) हाई स्पीड शीट कटिंग मशीन, मात्रा-1 स्त्र) साइड फ्लैप पेरिटंग मशीन, मात्रा-1

ग) हाई कटिंग मशीन, मात्रा-1

हेवी ड्यटी डबल प्रोफाइल कोरुगेशन, मात्रा-1

इलेक्टॉनिक स्लोटर मात्रा-१

ज) 2 एचपी गम मिक्सर, विना मोटर के. मात्रा-1

4 रॉल रोटरी कटिंग मशीन, मात्रा-1 4 रॉल शीट पैरिटेंग मशीन, मात्रा-1

हीजी सेट एपीपी 60केवीए, मात्रा-1

हाहतालिक वैश्वित प्रेस प्रापा

व) हाइड्रॉलिक विपिटंग ट्रॉली, माता-1,
 व) इंडरिट्यल एलपीजी सिलिण्डर, माता-6,

पेडेस्टल पंखे. माजा-6 ब्रावन कापर पेपर टोल 38", मात्रा-35

₹. 29.82.000/ रु. 2.98.200/-, 25.3.2021 के 5.00 बने अप. तक।

सम्पत्ति का आरक्षित मल्य इंएमडी एवं इंएमडी जमा करने की

पिनिया। नियमाणार्थ 2007 में निर्दिष्ट कार्य गया निमन कार्य के अधीन होती. प्रनाट मार्वाली को निक्री अधिकार, पदि कोई तो, ग्रांति " निक्र है जहां है अधार " या जो नाराये। मैंक जो न

र अधिभागः नहीं है। तम्बे में में में में में में में में Modelmankspoction com के जान्यम में "अनिसाइन इसेन्ट्रिमिक चीनी" तीमी । मीनी पी जाते हैं कि ने नेतानमें मित्री अवित्ता में पान जैने में पूर्व जिन्हा करते के तिन केवानाईट देखें। यति का मित्रेलन 22.3.2021 को 2 जाने 3प. में 5.00 चने 3प. तक की प्रत्यिक्त उधिकारों की पूर्व अनुपत्ति से जिल्ला

प्प के 10% को एपपती का भुगावन प्रशिक्त अधिकारों, तेनगा कींक (वे-सिद्दोंबर) पालमीवी सामक्ष्र सेक्टर-18, नेपटा, अब मैं दिक्कर द्वापर हाण किया जा प्रस्ता है अध्यक 5.00 मने अप प्य उसने पूर्व नेनगा नैस. (वे-मादिकर) एनतीकी 18, नीवा, जान प्रमेश, हाल ने 1,8815300000014, आर्यप्रण्यामी कींव SYBN0008888 को स्वत्य में बेतीहर के एन स्टॉटरेस्टी निर्धि कोनमा द्वारी निया मा प्रस्ता है। पेट्या की पाल कींव कियान हम्माव्य समान्य पत्र नेना वे-मांची प्रशिक्ष (विजीदन हमनाव्य समान्य की मोर्चीयत र कृपया कोंव प्रसाद में केन के कानपुर, गोर्वियोग निर्मिट्ट, (गोर्वियोग्सन), केन्द्रीय कानपुर, विजीदन मेंव प्रशेक्ष स कहा, नीवान कीं प्रमोत्वार कींवा कींवा विजीद की स्वत्य कींवा कींवा कानपुर कींवा कींवा कींवा कींवा कींवा कींवा कार, नीवान कींवा प्रसाद कींवा की सुपान की निर्मिट की तानवाम बीनीवाला (गोर वैच विजीदन हानाक्स नाहे हो)

नव, शंवर्ष सं, यत, रंधेन अरोबी. वि माहन रिकेट के लिए बैंड माल का विकास।

विंदा कुरमा पर कुल होती। केलीदाता स. 19,000- के पुरस्क में अपनी बंदये में सुधार कर सकते हैं। तो बेती दाता की सम्बंधित पर उन्तरम कीई 1 आतिक मुख्य है कम जोगे। जाम करते हैं उन्हें सफल बीत्रीदाता वेशित किए जाएगा। बीत्रीदाता के पत्र में सी मालपे के मिलिएई कोडरिंग की पूर्ण के अपके रहेगे। की समस्य बीत्रीदाता के कमा में उनकी जायार के तकतात बार 255 मिसी मान (पूर्ण न्यादा होतारी सांहित) कुल तकतात की मान प्रतिकार मीत्रिय केलीटिंग के पत्रम 15 दिसी के भीता विश्व कारणा भीदे सकता बीत्रीदाता विचीति है में कुलों है जो उनके द्वारा जाया की बीत्री विज्ञ कारण बारा जीव्यकृत जीव्यकारी स्था तकता कर तो जायों तथा

ओएनजीसी 🎎 🛛 🕻

प्राकृतिक गैस उपभोक्ता सम्मिलन

ओएनजीसी राजमुन्दरी आस्ति देश के सभी इच्छुक प्राकृतिक गैस क्रेताऔ/उपभोक्ताओं के लिए एक उपभोक्ता सम्मिलन आयोजन कर रही है। सम्मिलन का विवरण, प्रत्ताव में गैस की मात्रा नीचे दी गयी है। कृपया इसे ध्यान से देख लें और हमें बतायें कि आप इस सम्मिलन में भाग लेने के इच्छुक हैं या नहीं। उपभोक्ता सम्मिलन केशी बेसिन में ओएनशीसी द्वारा नई गैर खोजों के लिए सम्भावित बाजार का आकलन करने के लिए नियोजित है और जिसे निविदा प्रक्रिया के माध्यम से देचा जायेगा . फील्ड, गैस की उपलब्धता, गैस ट्रांसमिशन/बिक्री आदि के माध्यम से सम्बन्धित अन्य विवरण उपभोक्ता समि होंगे जहाँ ओएनजीसी द्वारा विस्तत पस्ततीकरण किया जायेगा।

क्र. सं.	खोज टैग	फील्ड	उपलब्ध गैस(एससीएमडी)	गैस उपलब्धता की अवधि	निकटतम कस्बा एवं दूरी	डिलीवरी प्वाईट
1.	वेल पीजीएई	पेनुगींडा फील्ड	प्रथम 3 वर्षी हेतु 5,0 लाख एससीएमडी, इसके पश्चात 2,5		*मारटेरू (डब्ल्यू जी.डीटी.) 6 किमी *नरसापुर (डब्ल्यू जी.डी.टी.) कस्वा 28 किमी	एक्स-केटीएसी
2.	वेल जीएमटीएए	मुम्मातुरू फील्ड	लाख एस		*मारटेरू (डब्ल्यू.बी.डीटी.) 2-3 किमी	संस्थापन
3.	चेल केटीएसी	कविताम फोल्ड			*मारदेश (डब्ल्यू जी.डीटी.) 4-5 किमी	
4.	येल बीटीएसएडी	बन्तुमिली साउथ	1.5 लाख 5 वर्ष एससीएमडी		* भीमावरम टाउन-20 किमी	एक्स-बीटीएसएडी संस्थापन
5.	वेल बीकेएए	বিল্লোকুড	1 से 2 लाख 5 वर्ष एससीएमडी		मंदापेता/पसरियापुडी, झारजेवाई	एक्स-मेदापेता (पश्चिम) वा पर्सारयापुडी जीसीएस संस्थापन

उपभोक्ता सम्मिलन की तिथि : 15 मार्च, 2021, समय : 10:00 बजे से 14:00 बजे। स्थान : गोल्फ व्य बिल्डिंग, ओएनजीर उपमाबता साम्मलन का ताख : 15 मान, 2021, समय: 10000 वज स 1400 वज सा वाज सा वाज सामल व्यू आएनवासा जानुंद्री आसित, राजमुन्द्री-533103, आन्ध्र प्रदेश। इंच्छुक पार्टियों इस आयोजन में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ई-मेस आईडी के माध्यम से 10 माने, 2021 से पूर्व अपनी रुचियों जमा कर सकती हैं। इंच्छुक पार्टियों उपयुंचन तिथि एवं स्थान पर व्यक्तितात रूप से (अधिकतम 2 व्यक्ति प्रति फर्म) या वर्णुअल माध्यम से उपभोक्ता सोम्मलन में शामिल हो सकती हैं। वर्णुअल बैठक का विवस्ण निवेदन पर अलग से साझा किया जायेगा। किसी अन्य विवस्ण के लिए सम्पर्क करें : ई-मेल : E-mail: N_Aadarsh@ongc.co.in/kotlkalapudlkamala@ongc.co.in/mohankumar_anoop@ongc.co.in/prasad_vnv@ongc.co.in सम्पर्क 寸、: 9385261788/9443009723/9100067929

COURT NOTICE

In The Court Of Manmohan Bhatti JMIC -9. Jalandhar Unique Engineering Company

Shalimar Sales Shop CNR NO: PBJL03-005678-2019 NEXT DATE: 30-04-2021

Publication Issued To: Shalimar Sales Shop R/o Shops No. 3-4, Ward No.4. Chajju Majra Colony, Kharar, District Mohali Through Its Authorised Signatory Shinder Pal Singh Karir And

बढ़ाने से सुप्रीम को जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 4 मार्च।

जीएसटी माफी योज

वस्त एवं सेवा कर (जीएसटी) आम माफी के अनुरोध सहित दायर एक याचिका को सुप्रीम दिया। न्यायमुर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचुड़ और न्य ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय है जो परी तरह बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के एक व्यापारी ने व्यापारियों और लघु उद्यमियों को जीएसटी रिटर्न देने की फरियाद की थी।

सत्यकाम आर्य ने जीएसटी परिषद व की तीखी आलोचना की थी। इसमें जु अवधि के जीएसटी रिटर्न पांच सौ रुप 2020 तक दाखिल करने की छूट दी ग देरी पर रोजाना 50 रुपए के हिसाब से किया गया था। याचिका में आर्य ने इस के सरकार और जीएसटी परिषद को नि

लेकिन पीठ ने कहा कि उसकी नज निर्णय का हिस्सा है। लिहाजा याचिक पारित करना अदालत के लिए अनुचित होगा कि जो अर्थदंड सरकार ले च याचिका में दलील दी गई थी कि छोटे न होने के कारण जीएसटी आम माफी थे। कोविड-19 संक्रमण के कारण वे

जॉनसन एंड उत्पादों की जां को लेकर स

नई दिल्ली, 4 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण महानियंत्रक (डीसीजीआइ) और केंद्री (सीडीएससीओ) को जॉनसन एंड ज टेल्कम पाउडर में फार्मलडेहाइड और लगाने के लिए जांच में एकरूपता और जारी किया है। फार्मलडेहाइड और एर पर चिन्हित किया गया है। कार्सिनो आशंका बढ़ती है।

डीसीजीआइ, सीडीएससीओ के प्रा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसं कहा गया कि आयोग ने जॉनसन एंड निर्मित बच्चों के शैंपू में फार्मलडेहाइड की मौजदगी का विश्लेषण करने के पद्धति पर सुचनाएं मांगी है। इसमें कहा जवाब से साफ है कि वह इस मुद्दे पर करने में असफल रहा। एनसीपीसीआर 12 मार्च, 2020 को भेजे गए पत्र का मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन के ऐसबेस्टस की मौजूदगी का पता लगाने नहीं है। समन में 12 मार्च, 2021 को स डीसीजीआइ को निजी तौर पर उपस्थित

उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेश ई-निविदा आमंत्रण-निविदा सूचना संख्या-39/वि०जा०पा०मं०/आगरा/2

1. ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या-81/वि०जा०पा०मं०/आ०/2020 कं0वी0 उपकेन्द्र मैनपुरी पर स्थित आवासीय कॉलोनी में जलापूर्ति हेतु क्षतिग्रस्त को बदलने एवं नई पाईप लाइन बिछाने सम्बन्धी जानदीय कार्य, समय अव घरोहर घनराशि रू० 12,500 / –, निविदा मूल्य रू० 1180+250, अन्तिम तिथि निविदा का विस्तृत विवरण, विस्तारीकरण शुद्धिकरण इत्यादि की सूचना इ बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसको बेवसाइट के डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक खाता अधिशासी अभियन्ता (जानपद) :